

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस निमंत्रण

25 जनवरी 2019

जामिया में रूफ टॉप सोलर ग्रिड इंजीनियरिंग पर दो सप्ताह की प्रशिक्षण कार्यशाला

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के सौर ऊर्जा राष्ट्रीय संस्थान: एनआईएसई: के सहयोग से दो सप्ताह की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला 14 जनवरी 2019 से शुरू होकर 24 जनवरी 2019 तक चली। इसके उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जामिया के रजिस्ट्रार ए. पी. सिद्दीकी थे। एनआईएसई के निदेशक डा. ए. के. त्रिपाठी सम्मानित अतिथि थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रो जेड. ए. जाफरी ने अतिथियों एवं कार्यशाला में हिस्सा लेने वालों का स्वागत किया।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग कोर्स के समन्वयक डा. एहतेशाम हक ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

रजिस्ट्रार ए. पी. सिद्दीकी ने सौर ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण एवं लाभकारी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रो जाफरी और डा हक को बधाई दी। उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए जामिया को चुने जाने के लिए डा त्रिपाठी का आभार व्यक्त किया।

डा अरुण कुमार त्रिपाठी: डी जी, एनआईएसई: ने अपने संबोधन में बताया कि सरकार रूफ टॉप सोलर एप्लिकेशन्स को बढ़ावा दे रही है। इस विषय पर जामिया में उपलब्ध सुविधाओं पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया।

इस दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आईआईटी, बीएचईएल, एनआईएसई, एसईसीआई, आईआरईडीए आदि के विशेषज्ञों को लेक्चर के लिए आमंत्रित किया गया था।

इस दौरान एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैब में एक दिवसीय प्रैक्टिकल सत्र का आयोजन किया गया।

समापन सत्र के मुख्य अतिथि आईईईई-यूएसए के प्रो सुब्रत मुखोपाध्याय थे और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सलाहकार सुहेल अख्तर सम्मानित अतिथि ।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक